



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 कार्तिक 1938 (श10)

(सं० पटना 929) पटना, सोमवार, 24 अक्टूबर 2016

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

18 अक्टूबर 2016

सं० नि० प्रा०/ नि० 1-05/ 2014-673—चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न **अनुलग्नक-1** में अंकित विभिन्न सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा संलग्न **अनुलग्नक-2** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार अनुलग्नक-1 में अंकित सहकारी समितियों के उनकी उपविधियों में यथा वर्णित पदों के लिए निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु **दिनांक 22.11.2016 (मंगलवार)** की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या-599 दिनांक 14.09.2016 द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 31.08.2016 निर्धारित की गयी है एवं तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 07.10.2016 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा-14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- (i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।
- (ii) सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।
- (iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद खाली रहेंगे।
- (v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद खाली रहेंगे।
- (vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष स्थान बच जाते हैं, उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहेंगे।

निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए प्रपत्र-ई० 1 में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक 25.10.2016 (मंगलवार) को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को प्रपत्र-ई० 6 में विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई० 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को फैक्स (0612-2231562, 2215089) अथवा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

आदेश से,
फूल सिंह,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

अनुलग्नक-1

निर्वाचन देय सहकारी समितियों की सूची

क्र०	जिला का नाम	प्रखंड	समिति का नाम
1	मधुबनी	बेनीपट्टी	सोहॉस पंचायत पैक्स (मात्र अध्यक्ष के रिक्त पद के लिए)
2	बक्सर	बक्सर	चुरामनपुर पैक्स (मात्र अध्यक्ष के रिक्त पद के लिए)
3	खगड़िया	अलौली	अलौली पैक्स (मात्र अध्यक्ष के रिक्त पद के लिए)
4	कटिहार	मनिहारी	मनिहारी ब्लॉक ट्राफिक को-आपरेटिव सोसाईटी लि०, मनिहारी
5	मुजफ्फरपुर	मुसहरी	दी वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी/पदाधिकारी साख स०स० लि०
6	सिवान	महाराजगंज	हल्दीहट्टा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि०,
7	सिवान	सीवान सदर	कनिष्क सहकारी गृह निर्माण समिति लि०, सिवान
8	पश्चिम चम्पारण, बेतिया	बेतिया	बेतिया अनुमंडल कथा उत्पादक औद्योगिक सहयोग समिति लि०
9	पश्चिम चम्पारण, बेतिया	मझौलिया	नारायणपुर संयुक्त कृषि स०स० लि० परसा
10	पश्चिम चम्पारण, बेतिया	मझौलिया	लाल सरैया रिफ्यूजी कॉलोनी संयुक्त कृषि स०स० लि० लाल सरैया
11	पश्चिम चम्पारण, बेतिया	मझौलिया	परसा महिला विकास सहयोग समिति लि० परसा
12	पश्चिम चम्पारण, बेतिया	मझौलिया	परसा तेल उत्पादक सहयोग समिति लि०, परसा
13	पश्चिम चम्पारण, बेतिया	मझौलिया	वृताचक ईख उत्पादक स०स० लि० परसा
14	पश्चिम चम्पारण, बेतिया	मझौलिया	परसा ईख उत्पादक सहयोग समिति लि० परसा
15	पश्चिम चम्पारण, बेतिया	मझौलिया	परसा संयुक्त कृषि सहयोग समिति लि० परसा
16	पटना	पटना सदर	आदर्श किसान सहकारी गृह निर्माण समिति लि०, सालिमपुर अहरा, पटना
17	पटना	पटना सदर	डिफेंस कॉलोनी सहकारी सहकारी उपभोक्ता भंडार लि०, कंकड़बाग, पटना
18	पटना	पटना सदर	अलकापुरी सहकारी गृह निर्माण समिति लि०
19	पटना	पटना सदर	अनिकेत सहकारी गृह निर्माण समिति लि०
20	पटना	दानापुर	दानापुर केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी स्टोर लि०, दानापुर
21	पटना	दानापुर	बीबीगंज भट्टा फल सब्जी उत्पादक सहयोग समिति लि०
22	सारण	सोनपुर	के०जी०एन० प्राथमिक धुनिया रंज दर्जी (घुरद) स०स० लि०
23	सारण	सोनपुर	कसमर चर्मकार औद्योगिक स०स०
24	सारण	सोनपुर	कसमर अनु० जाति ग्रामोद्योग स०स०
25	सारण	सोनपुर	कसमर अनु० जाति ताड़गुड़ खण्डसारी औद्योगिक स०स०
26	सारण	सोनपुर	कसमर हरिजन कुकुट पालन स०स०
27	सारण	सोनपुर	कसमर बाजार फल सब्जी उत्पाद स०स०
28	सारण	सोनपुर	खरीफ ईट भठा निर्माण औद्योगिक स०स०
29	औरंगाबाद	औरंगाबाद सदर	शमशेरनगर पैक्स

अनुलग्नक-2

अनुलग्नक-1 में उल्लिखित समितियों के प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई० 1 में सूचना का प्रकाशन	25.10.2016 (मंगलवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	12.11.2016 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	14.11.2016 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	15.11.2016 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	22.11.2016 (मंगलवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	22.11.2016 (मंगलवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)

आदेश से,
फूल सिंह,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 929-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>